



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 1982/माघ 29, 1903  
No. 59] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 1982/MAGHA 29, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1982

का०आ० 85(अ).—नारियल विकास बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड  
अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित  
विनियम बनाता है, अर्थात्—

### अध्याय 1

#### प्रारम्भिक

1 संक्षेप नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन विनियमों  
का संक्षेप नाम नारियल विकास बोर्ड विनियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएँ.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ या विषय के  
विरुद्ध कोई बात न हो,—

(क) “अधिनियम” से नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979  
(1979 का 5) अभिप्रेत है,

(ख) “मुख्य नारियल विकास अधिकारी” से बोर्ड का मुख्य नारियल  
विकास अधिकारी अभिप्रेत है,

(ग) “समिति” से अधिनियम की धारा 9 के अधीन बोर्ड द्वारा  
नियुक्त की गई कोई समिति अभिप्रेत है,

(घ) “नियम” से नारियल विकास बोर्ड नियम 1981 अभिप्रेत है;

(ङ) “सचिव” से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) “उपाध्यक्ष” से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) ऐसे अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परि-  
भाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ  
होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

### अध्याय 2

#### बोर्ड की समितियाँ

3. समितियों की नियुक्ति.—(1) बाढ़, प्रत्येक वर्ष, नारियल विकास  
बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 9 में यथा उपबन्धित, निम्नलिखित  
समितियाँ और ऐसी अन्य समितियाँ नियुक्त कर सकता है जो  
बोर्ड अपनी ऐसी शक्तियों के प्रयोग और ऐसे कृत्या के निवहन के लिए,  
आवश्यक समझे जा उसे इन विनियमों के अधीन प्रत्यायाजित किया जाए,  
अर्थात्—

(क) कार्यपालक समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(i) अध्यक्ष जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा,

(ii) उपाध्यक्ष,

- (iii) केरल, तमिलनाडू और कर्नाटक राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड छ के अधीन नियुक्त किए गए हों ;
- (iv) तीन अन्य सदस्य जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए गए हों और जिनमें से दो उगाने वालों के प्रतिनिधि होंगे।
- (ख) अनुसंधान और विपणन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे,—
- (i) अध्यक्ष, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ;
- (ii) उपाध्यक्ष ;
- (iii) नारियल उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सभी चार सदस्य जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अधीन नियुक्त किए गए हों ;
- (iv) मुख्य कृषि विशेषज्ञ, भारत सरकार, पदेन ;
- (v) निदेशक, केंद्रीय खाणिक कर्मल संस्थान, पदेन ;
- (vi) चार अन्य व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा ऐसे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं या ऐसी संस्थाओं से जिनका प्रतिनिधित्व बोर्ड में नहीं है, सहयोजित किए जाएंगे परन्तु यह कि ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(ग) प्रसंस्करण और विपणन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

- (1) अध्यक्ष जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ;
- (ii) उपाध्यक्ष ;
- (iii) बोर्ड का सदस्य जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन नारियल प्रसंस्करण उद्योग, का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;
- (iv) अध्यक्ष साँगर बोर्ड पदेन ;
- (v) चार सदस्य, जो बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे और जिनमें से दो उगाने वालों के प्रतिनिधि होंगे ;
- (vi) चार ऐसे अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड के सदस्य न हों, बोर्ड द्वारा (1) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग, (2) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, (3) केरल राज्य नारियल विकास निगम लिमिटेड, और (4) भारत सरकार के विपणन निरीक्षण और निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहयोजित किए जाएंगे, परन्तु यह कि ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(घ) प्रचार समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे,—

- (i) अध्यक्ष, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ;
- (ii) उपाध्यक्ष ;
- (iii) तीन सदस्य जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन केरल, तमिलनाडू और कर्नाटक सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए गए हों ;
- (iv) तीन सदस्य जो बोर्ड द्वारा निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए गए हों और जिनमें से एक उगाने वालों का प्रतिनिधि होगा ;

(v) चार ऐसे अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड के सदस्य न हों, बोर्ड द्वारा (1) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग (2) ऐसे मण्डलों, जो कृषि संबंधी जानकारी में लगे हैं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहयोजित किए जाएंगे परन्तु यह कि ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष, जो प्रत्येक गमिति का पदेन अध्यक्ष है, बोर्ड के किसी अधिकारी या किसी अधिकारियों से समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी/अधिकारियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

4. **समितियों के कृत्य** —(क) कार्यपालक समिति —ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो बोर्ड अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, कार्यपालक समिति प्रणामन, वित्त और अन्य मामलों से संबंधित बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो बोर्ड उसे समनुदिष्ट करे।

(ख) अनुसंधान और विकास समिति —ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो बोर्ड अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, अनुसंधान और विकास समिति, भारत में नारियल की खेती और नारियल लघु उद्योगों के विकास, जिनके अन्तर्गत नारियल सम्बन्धी कृषि और प्रौद्योगिकी अनुसंधान का संघर्ष भी है, से संबंधित बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो बोर्ड उसे समनुदिष्ट करे।

(ग) प्रसंस्करण और विपणन समिति —ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो बोर्ड अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, प्रसंस्करण और विपणन समिति, नारियल और उसके उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन उद्योग विविधता और उपोत्पाद उपयोग, श्रेणीकरण, भंडारण और सहकारिता विकास से संबंधित बोर्ड के ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो बोर्ड उसे समनुदिष्ट करे।

(घ) प्रचार समिति :—ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो बोर्ड अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, प्रचार समिति, नारियल उद्योग के सभी पहलुओं पर जानकारी के प्रकाशन और प्रचार से संबंधित बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो बोर्ड उसे समनुदिष्ट करे।

5. **उपसमिति** . बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति पदेन सदस्यों में से, किसी निनिर्दिष्ट विषय पर जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए या बोर्ड द्वारा उसे आवंटित कृत्यों के विस्तार के भीतर किसी अन्य पर्याजन के लिए किसी उप समिति की नियुक्ति कर सकती है।

### अध्याय 3

#### बोर्ड और उसकी समितियों के अधिवेशन की प्रक्रिया

6. बोर्ड का अधिवेशन . बोर्ड प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अपना अधिवेशन ऐसी तारीख पर और ऐसे स्थान पर जो अध्यक्ष उचित समझे, करेगा और किसी दो सामान्य अधिवेशनों के बीच का अंतराल, किसी भी वर्षा में, चार मास से अधिक नहीं होगा।

परन्तु बोर्ड, किसी विशिष्ट तिमाही में केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञा से अधिवेशन नहीं भी कर सकता है।

7. अधिवेशन बुलाने की शक्ति —(1) अध्यक्ष किसी भी समय, बोर्ड या उसकी किसी समिति का अधिवेशन बुला सकता है और वह ऐसा तब करेगा जब, बोर्ड के अधिवेशन की वषा में, कम से कम आठ सदस्य और समिति के अधिवेशन की दशा में कम से कम चार सदस्य, किसी अधिवेशन के लिए लिखित रूप में अव्यपेक्षा प्रस्तुत करें।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के किसी अधिकारी या किसी अधिकारियों से बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है किन्तु ऐसे अधिकारियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) बोर्ड के किसी अधिवेशन के कम से कम चौदह पूर्ण दिन पूर्व और किसी समिति के अधिवेशन के कम से कम दस पूर्ण दिन पूर्व आशयित अधिवेशन की तारीख समय और स्थान की सूचना द्वारा ज्ञातार्थित सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और प्रवर्धित प्राई या समिति के प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ा या भेजी जाएगी।

परन्तु अत्यावश्यकता की दशाओं में बोर्ड अथवा एक या अधिक समिति/समितियों का विशेष अधिवेशन किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकता जो अधिम रूप में केन्द्रीय सरकार और सदस्यों का विचार-विमर्श के लिए विषय वस्तु की और उन प्राप्ति की जिसमें वह ऐसा अत्यावश्यक अधिवेशन बुलाना चाहता है सूचना देगा। ऐसे विशेष अधिवेशन में किसी सामान्य कारबार का व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(1) इन विनियमों में किन्ती बात के लोके हुए या केन्द्रीय सरकार भी किसी समय बाई या अधिवेशन बुला सकती है।

९ गणपूर्ति —(1) बोर्ड या किसी अधिवेशन में किसी कारबार का व्यवहार जब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उनमें कम से कम आठ सदस्य उपस्थित न हों और किसी मामले के किसी अधिवेशन में किसी कारबार का व्यवहार जब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति का गठन करने वाले कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों।

(2) यदि किसी समय किसी समिति या अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति में कम है तो अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति उस तारीख तक जो अधिवेशन की तारीख में गान दिन के पञ्चात् की न हो, स्थगित कर देगा और स्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सूचना समिति के सदस्यों का देगा और यदि ऐसे स्थगित अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति में कम है तो इस प्रकार उपस्थित सदस्यों से भी गणपूर्ति होगी।

१० समिति के अधिवेशन में अनुपस्थित समिति के पदेन सदस्य में भिन्न कोई सदस्य यदि अध्यक्ष की अनुमति के बिना तीन प्रत्येक अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो वह उस समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।

10 आकस्मिक रिक्रियों का भरा जाना (1) किसी समिति की सदस्यता में किसी आकस्मिक रिक्रियों को समिति के अवशेष सदस्यों द्वारा बाई के सदस्यों में से भरा जाएगा।

(2) किसी आकस्मिक रिक्रियों में नियुक्त किया गया व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य यदि रिक्रियों में हई होनी तो पद धारण करने का हकदार होगा जिसके स्थान का वह भरता है।

11 अधिवेशन की अध्यक्षता —अध्यक्ष, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की और समितियों के उन अधिवेशन की जिसमें वह उपस्थित है अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो अधिवेशन में उपस्थित सबसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक सदस्य का निर्वाचन करेगा।

12 कार्यवृत्त —(1) अध्यक्ष बोर्ड या किसी समिति के सामान्य अधिवेशन के कम से कम दस दिन पूर्व उस अधिवेशन में व्यवहार्य कारबार की एक सूची तैयार कराएगा और उसे केन्द्रीय सरकार तथा बाई के या किसी ऐसी समिति के सदस्यों में परिचालित कराएगा।

13 परिचालन द्वारा कारबार —(1) कोई कारबार जिसका बाई या किसी समिति द्वारा व्यवहार किया जाता है यदि बोर्ड या समिति का अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे ता ऐसे सदस्यों का (उन सदस्यों से भिन्न जो भारत से अनुपस्थित हैं) कागजातों के परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) उप विनियम (1) के अधीन परिचालित और उन सदस्यों के बहुमत द्वारा जिन्होंने लिखित रूप में अपने विचार अभिलिखित किए

हैं अनुमोदित कोई प्रस्ताव या संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और बाबजूकारी होगा मानो ऐसे प्रस्ताव या संकल्प किसी अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

परन्तु तब जब कि प्रवर्धित प्राई के कम से कम चार सदस्यों ने या समिति के कम से कम चार सदस्यों ने उस प्रस्ताव या संकल्प पर अपने विचार अभिलिखित किए हों परन्तु यह और कि तब बाई प्रस्ताव या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है ता प्रवर्धित प्राई के पांच सदस्य या किसी समिति के तीन सदस्य, यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रस्ताव या संकल्प अधिवेशन में सदस्यों का निर्दिष्ट किया जाए और तदुपरि गता निर्देश प्रवर्धित प्राई या किसी समिति के अधिवेशन में किया जाए।

(3) जब बाई कारबार प्रवर्धित प्राई या किसी समिति के सदस्यों को परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तब सदस्यों से उत्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम पन्द्रह पूर्ण दिनों की अवधि अनुज्ञात की जाएगी ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख का कारबार की सूचना जारी की जाती है।

(4) यदि कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम बाई या सर्वोच्च समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

(5) कागजातों के परिचालन द्वारा प्राप्त सभी विनिश्चय या प्रश्न, अभिलेख के लिए प्रवर्धित प्राई या समिति के अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

14 कारबार का अभिलेख —(1) सचिव बाई या समितियों द्वारा व्यवहार्य कारबार की सभी मदों का अभिलेख लेगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

(2) बाई और किसी भी समिति को प्रत्येक बैठक में व्यवहार्य कारबार के अभिलेख पर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ऐसे परिचालन का अध्यक्षता करने वाला सदस्य हस्ताक्षर करेगा।

(3) तब किसी कारबार का व्यवहार कागजातों के परिचालन द्वारा किया जाता है तब इस प्रकार व्यवहार्य कारबार के अभिलेख पर अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा।

15 मतदान —(1) बाई या उसका मामला के लोके गए प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय उस अधिवेशन में किसी मामला लाया जाता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

(2) मतों के समान हान की दशा में प्रवर्धित प्राई या समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का एक तथा या निष्पत्तिक मत होगा।

16 पुनरीक्षण केन्द्रीय सरकार कारणों को लेखवद्ध करके बाई या उसकी समितियों के विनिश्चय का पुनरीक्षण कर सकती है और मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपविनियम (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति बोर्ड को भेजेगा।

(3) प्रवर्धित प्राई आदेश की एक प्रति प्राप्त होने पर, बोर्ड उस आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार का अपवाद कर सकती है और केन्द्रीय सरकार अपवाद पर विचार करने के पश्चात् उपविनियम (1) के अधीन पारित आदेश का या तो रद्द, उपात्तगम या पुनर् कर सकती है या उस मामले को बाईन ऐसी अन्य कार्यवाई कर सकती है जो मामले को सभी परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उसकी राय में उचित या समीचीन हो।

## [ अध्याय 4

## कर्मचारियों की सेवा शर्तें

17. वेतन छुट्टी और भत्ते आदि बोर्ड के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेशन और सेवानिवृत्ति फायदे अन्य सेवा शर्तें तथा अन्य प्रसुविधाएँ और दियायें जैसे कि वेतन अधिनियम, सवारी के क़य के लिए अधिनियम गृहों के सन्निर्माण और बैसी ही अन्य ऐसे नियमों या विनियमों के अनुसार विनियमन की जाएगी जो तत्समय केन्द्रीय सरकार के उन स्थानों पर विनिर्दिष्ट कर्मचारियों या प्रसिद्धि के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू हों जब तक कि बोर्ड पृथक् विनियम नहीं बना लेता।

18. इस विनियम नगरपाल विकास बोर्ड नियम 1981 के नियम 18 के अधीन रहते हुए नगरपाल विकास निदेशालय में विभिन्न प्रवर्गों पदों के लिए शर्तों नियम बोर्ड के अधीन वैसे ही या समान पदों के प्रवर्गों में नियुक्ति के लिए लागू होंगे जब तक कि कोई पृथक् शर्तें नियम नहीं बना लेते परन्तु ऐसे प्रवर्गों के लिए जो नगरपाल विकास निदेशालय में विद्यमान प्रवर्गों जैसे ही या उनके अनुरूप नहीं है बोर्ड केन्द्रिय सरकार के पूर्व अनुमोदन से जैसे और जय उन पदों का सृजन किया जाता है या सृजन के लिए प्रस्तावित किया जाए शर्तें विनियम बना सकेंगे।

[फाइल संख्या 14-14/81-सी०ए-1]

अर० सी० सुद, अपर सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
(Department of Agriculture & Cooperation)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 1982

**S.O. 85(E).**—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Coconut Development Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

**CHAPTER- I**

**Preliminary**

1. Short title, Commencement and application.—(1) These regulations may be called the Coconut Development Board Regulations, 1982 ;

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless there is anything repugnant in subject or context.

- (a) 'the Act' means the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979);
- (b) 'Chief Coconut Development Officer' means the Chief Coconut Development Officer of the Board;
- (c) 'Committee' means any Committee appointed by the Board under section 9;
- (d) 'rules' means the Coconut Development Board Rules, 1981;
- (e) 'Secretary' means the Secretary of the Board;
- (f) 'section' means the section of the Act;
- (d) 'Vice-Chairman' means the Vice-Chairman of the Board;
- (h) The words and expressions used and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**CHAPTER—II**

**Committees of the Board**

3. Appointment of Committees.—(1) The Board may appoint every year, as provided in section 9 of the Coconut Development Board Act, 1979, the following Committees and may appoint such other Committees as the Board deems necessary to exercise such powers and discharge such functions as may be delegated to it under these regulations, namely :—

(a) an Executive Committee consisting of :—

(i) the Chairman who shall be the ex-officio Chairman of the Committee.

(ii) a Vice-Chairman;

(iii) three members representing the Government of the States of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka appointed under clause (g) of sub-section (4) of section 4 of the Act.

(iv) three other members elected by the members of the Board from amongst—themselves of whom, two shall be representatives of growers.

(b) a Research and Development Committee consisting of :—

(i) the Chairman who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;

(ii) a Vice-Chairman;

(iii) all the four-member of the Board representing coconut growers appointed under clause (i) of sub-section (4) of section 4 of the Act;

(iv) the Chief Agricultural Expert to the Government of India; Ex-Officio;

(v) the Director, Central Plantation Crops Research Institute; Ex-Officio.

(vi) four other persons to be co-opted by the Board from amongst experts and scientists who are not members of the Board, or from institutions which are not represented on the Board provided that such co-opted persons shall have no right to vote.

(c) a Processing and Marketing Committee consisting of :—

(i) the Chairman who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;

(ii) a Vice-Chairman;

(iii) the member of the Board representing the coconut processing industry appointed under clause (j) of sub-section (4) of section 4 of the Act;

(iv) the Chairman of the Coir Board; Ex-officio;

(v) four members elected by the members of the Board from amongst themselves of whom two shall be representatives of growers;

(vi) four other persons to be co-opted by the Board to represent (1) the Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture, Government of India (2) the National Cooperative Development Corporation Ltd. (3) the Kerala State Coconut Development Corporation Ltd., and (4) the Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, who are not members of the Board provided that such co-opted persons shall have no right to vote.

(d) a Publicity Committee consisting of :—

(i) the Chairman who shall be the ex-officio Chairman of the Committee,

(ii) a Vice-Chairman;

(iii) three members representing the Governments of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka appointed under clause (g) of sub-section (4) of section 4 of the Act;

(iv) Three members appointed by the Board by election of whom one shall be representative of growers.

- (v) four other persons to be co-opted by the Board to represent (1) the Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture, Government of India (2) such organisations as are engaged in Agricultural Information who are not members of the Board provided that such co-opted persons shall not have the right to vote.
- (2) The Chairman of the Board who is the ex-officio Chairman of every Committee may require any officer or officers of the Board to attend any meeting of the Committee but such officers shall have no right to vote.
4. Functions of the Committees.—(a) Executive Committee.—Subject to such restrictions and conditions as may be imposed by the Board, the Executive Committee shall discharge such functions of the Board relating to the administration, finance and other matters as may be assigned to it by the Board.
- (b) Research and Development Committee.—Subject to such restrictions and conditions as may be imposed by the Board, the Research and Development Committee shall discharge such functions of the Board relating to the development of coconut cultivation and coconut small holdings in India including promotion of agricultural and technological research on coconut as may be assigned to it by the Board.
- (c) Processing and Marketing Committee.—Subject to such restrictions and conditions as may be imposed by the Board, the Processing and Marketing Committee shall discharge such functions of the Board relating to processing and marketing of coconut and its products, product diversification and by-product utilisation grading, storage and cooperative development as may be assigned to it by the Board.
- (d) Publicity Committee.—Subject to such restrictions and conditions as may be imposed by the Board, the Publicity Committee shall discharge such functions of the Board relating to the publications and dissemination of information on all aspects of coconut industry as may be assigned to it by the Board.
5. Sub-Committee.—A committee appointed by the Board may appoint a Sub-Committee from among its members for enquiring and reporting on any specified subject or any other purpose within the scope of the functions allotted to it by the Board.

### CHAPTER—III

#### Procedure for Meetings of the Board and its Committees

6. Meeting of the Board.—The Board shall hold a meeting at least once in every quarter on such dates and at such places as the Chairman may think fit, and the interval between any two ordinary meetings shall not in any case, be longer than four months.
- Provided the Board may, with the permission of the Central Government, hold no meeting in any particular quarter.
7. Power to call Meetings.—(1) The Chairman may at any time, call a meeting of the Board or of any of the Committees, and shall do so if a requisition for a meeting is presented to him in writing by at least eight members in the case of a meeting of the Board and at least four members in the case of a meeting of a Committee.
- (2) The Chairman may require any officer or officers of the Board to attend any meeting of the Board but such officers shall not have the power to vote.
- (3) At least fourteen clear days before any meeting of the Board and at least ten clear days before a meeting of any of the Committees notice of the date, time and place of the intended meeting signed by the Secretary shall be sent to the Central Government and left at or posted to the address of every member of the Board or, as the case may be, of the Committee.

Provided that in case of urgency, a special meeting of the Board or of any or more of the Committees may be summoned at any time by the Chairman, who shall inform in advance, the Central Government and the members, of the subject-

matter for discussions and the reasons for which he considers the summoning of such urgent meeting. No ordinary business shall be transacted at such special meetings.

(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Central Government may also, at any time, call a meeting of the Board.

8. Quorum.—(1) No business shall be transacted at a meeting of the Board unless there are present at least eight members and no business shall be transacted at a meeting of a Committee unless there are present at least four members constituting the Committee.

(2) If at any time the number of members present in a meeting of any of the Committees is less than the required quorum, the person presiding shall adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the meeting informing the members of the Committee of the date, time and place of the adjourned meeting, and if the number of members present at such adjourned meeting is less than the required quorum, the members so present shall be the quorum.

9. Absence from meetings of a Committee.—Any member other than an ex-officio member, of a Committee absenting himself from three consecutive meetings without the leave of the Chairman shall cease to be a member of that Committee.

10. Filling up of casual vacancies.—(1) Any casual vacancy in the membership of a Committee shall be filled up by the remaining members of the Committee from amongst the members of the Board.

(2) A person appointed in a casual vacancy shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occurred.

11. Presiding over Meetings.—At every meeting of the Board or any of the Committees at which he is present, the Chairman shall preside and, in his absence, the Vice-Chairman shall preside. If both the Chairman and the Vice-Chairman are absent, the members present at the meeting shall elect one from among themselves to preside at the meeting.

12. Agenda.—(1) The Chairman shall cause to be prepared and circulated to the Central Government and among the members of the Board or any of the Committees at least ten days before any ordinary meeting of the Board or of such Committee, a list of business to be transacted at that meeting.

13. Business by circulation.—(1) Any business which is to be transacted by the Board or a Committee may if the Chairman of the Board or of the Committee so directs be referred to members (other than members who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any proposal or resolution circulated under sub-regulation (1) and approved by the majority of members who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such proposal or resolution were decided by the majority of the members at a meeting.

Provided that at least eight members of the Board or four members of the Committee as the case may be have recorded their views on the proposal or resolution.

Provided further that when a proposal or resolution is referred to the members by circulation, any five members, of the Board or three members of any of the Committees, as the case may be, may require that the proposal or resolution be referred to members at a meeting, and thereupon such reference shall be made to members at a meeting of the Board or of the Committee, as the case may be.

(3) When any business is referred to members of the Board or of the Committee, as the case may be, by circulation a period of not less than fifteen clear days shall be allowed for receipt of replies from members. Such period shall be reckoned from the date on which the notice of business is issued.

(4) If a proposal or resolution is circulated, the result of the circulation shall be communicated to all the members of the Board or of the Committee concerned.

(5) All decisions on questions arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting of the Board or of the Committee, as the case may be for record.

14. Record of Business.—(1) A record shall be maintained by the Secretary of all items of business transacted by the Board or by the Committees and copies of such record shall be forwarded to the Central Government.

(2) The record of business transacted at every meeting of the Board and of any of the Committees shall be signed by the Chairman or the Vice-Chairman or the member presiding at such meetings.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman.

15. Voting.—(1) Every question brought before any meeting of the Board or its Committees shall be decided by a majority of members present and voting at the meeting before which the matter is brought.

(2) In the case of an equality of votes, the Chairman or the Vice-Chairman or the member presiding over the meeting of the Board or of the Committee, as the case may be, shall have a second or casting vote.

16. Revision.—(1) The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, review any decision of the Board, or its Committee and pass such order in the matter as it thinks fit.

(2) A copy of every order passed under sub-regulation (1) shall be sent to the Board by the Central Government.

(3) On receipt of a copy of the order as aforesaid, the Board may make a representation to the Central Government against the said order and the Central Government may after considering the representation, either cancel, modify or confirm the order passed by it under sub-regulation (1), or take

such other action in respect of the matter as may, in the opinion of the Central Government, be just or expedient, having regard to all the circumstances of the case.

#### CHAPTER IV

##### Service Conditions of Employees

17. Pay, leave, and allowances etc.—The pay, leave, allowances, pension and retirement benefits, other conditions of service and other facilities and concessions such as advances of pay, advances for purchase of conveyances, construction of houses and the like, in respect of all employees of the Board, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees of the Central Government of the corresponding grades or status stationed at these places till separate regulations are made by the Board.

18. Recruitment regulations.—Subject to rule 18 of the Coconut Development Board Rules, 1981, the recruitment rules for the different categories of posts in the Directorate of Coconut Development shall apply for appointment to the same or similar categories of posts under the Board till separate recruitment rules are framed by the Board.

Provided that for the categories of which are not similar to the existing ones in the Directorate of Coconut Development recruitment regulations shall be framed by the Board, with the prior approval of the Central Government as and when such posts are created or proposed to be created.

[F. No. 14-14/S1-CAI]

R. C. SOOD, Addl. Secy.